

अनुबंध 3अ: वर्ष 2003-06 (औसत) के लिए गैर विशेष श्रेणी के राज्यों की संक्षिप्त स्थिति

संकेतक	क्वार्टाइल 1 (क्यू 1)	क्वार्टाइल 2 (क्यू 2)	क्वार्टाइल 3 (क्यू 3)	क्वार्टाइल 4 (क्यू 4)
(अ) घाटा संकेतक				
1. जीएफडी/जीएसडीपी	रेंज: 1.9 से 3.1 हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा	रेंज: 3.2 से 4.4 छत्तीसगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश, गुजरात	रेंज: 4.7 से 5.4 केरल , बिहार, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल	रेंज: 5.5 से 7.7 राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश
2. आरडी/जीएसडीपी	रेंज: -0.7 से 0.0 कर्नाटक, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा	रेंज: 0.1 से 1.0 तमिलनाडु, गोवा , उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश	रेंज: 1.6 से 2.0 गुजरात, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र	रेंज: 3.1 से 4.0 पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल
3. पीडी/जीएसडीपी	रेंज: -2.5 से 0.0 उड़ीसा, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु	रेंज: 0.1 से 0.7 कर्नाटक, पंजाब, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़	रेंज: 0.8 से 1.2 पश्चिम बंगाल , राजस्थान, केरल, गुजरात	रेंज: 1.3 से 5.8 उत्तर प्रदेश, झारखंड, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश
4. पीआरबी/जीएसडीपी	रेंज: -6.1 से -3.2 बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़	रेंज: -2.7 से -2.4 हरियाणा, राजस्थान, गोवा, आंध्र प्रदेश	रेंज: -2.4 से -1.1 मध्य प्रदेश , तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात	रेंज: -0.6 से 0.0 पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र
5. आरडी/जीएफडी	रेंज: -131.4 से -32.0 हरियाणा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक	रेंज: -20.6 से 17.8 बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश	रेंज: 19.2 से 31.4 गोवा , राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात	रेंज: 40.7 से 75.1 महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल
6. आरडी/आरआर	रेंज: -3.8 से 0.3 कर्नाटक, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा	रेंज: 1.1 से 6.7 तमिलनाडु, उड़ीसा, गोवा, आंध्र प्रदेश	रेंज: 7.5 से 13.9 मध्य प्रदेश , झारखंड, राजस्थान, गुजरात	रेंज: 18.9 से 42.5 महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश
(आ) राजस्व निष्पादन				
7. ओटीआर/जीएसडीपी	रेंज: 8.9 से 10.5 हरियाणा, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु	रेंज: 7.9 से 8.7 आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र	रेंज: 7.1 से 7.6 गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश	रेंज: 4.7 से 7.0 पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश
8. ओएनटीआर/जीएसडीपी	रेंज: 2.9 से 7.5 झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, गोवा	रेंज: 2.2 से 2.8 उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा	रेंज: 1.2 से 2.0 महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान , आंध्र प्रदेश	रेंज: 0.5 से 1.1 पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश
9. सीटी/जीएसडीपी	रेंज: 8.2 से 20.7 उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा	रेंज: 4.7 से 7.3 आंध्र प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश	रेंज: 3.6 से 4.5 केरल, पश्चिम बंगाल , तमिलनाडु, कर्नाटक	रेंज: 1.8 से 2.5 हरियाणा, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब
(इ) व्यय पद्धति				
10. डीइवी/जीएसडीपी	रेंज: 16.5 से 18.9 मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, बिहार	रेंज: 13.7 से 14.8 राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़	रेंज: 10.5 से 12.7 गुजरात, उड़ीसा , कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश	रेंज: 7.6 से 10.0 पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा
11. गैर-डीइवी/जीएसडीपी	रेंज: 5.5 से 5.7 गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र	रेंज: 6.3 से 7.1 आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश	रेंज: 7.3 से 7.6 गोवा , पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान	रेंज: 7.9 से 14.1 केरल, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा
12. एसएसई/जीएसडीपी	रेंज: 8.7 से 12.8 राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड	रेंज: 7.0 से 8.1 उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, उड़ीसा	रेंज: 6.6 से 6.9 कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु , आंध्र प्रदेश	रेंज: 4.2 से 5.6 पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र
13. सीओ/जीएसडीपी	रेंज: 3.4 से 4.5 उत्तर प्रदेश, झारखंड, गोवा, मध्य प्रदेश	रेंज: 3.0 से 3.2 कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़	रेंज: 2.2 से 2.8 तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश	रेंज: 0.7 से 1.7 पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा
(ई) ऋण स्थिति				
14. ऋण/जीएसडीपी	रेंज: 29.0 से 30.2 हरियाणा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु	रेंज: 30.5 से 42.3 झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात	रेंज: 42.5 से 51.6 मध्य प्रदेश , आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब	रेंज: 52.0 से 76.6 राजस्थान, उड़ीसा, गोवा, बिहार, उत्तर प्रदेश
15. आइपी/आरआर	रेंज: 10.9 से 16.7 झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु	रेंज: 18.7 से 21.8 गोवा, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश	रेंज: 22.4 से 27.1 बिहार , आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब	रेंज: 27.9 से 48.3 उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात
टिप्पणी : 1. इन सारणी में इंगित की गई क्वार्टाइल स्थिति सारणी 18 में दिए गए राजकोषीय संकेतक आंकड़ों के आधार पर हैं। राज्यों का 4 क्वार्टाइलों यथा, क्यू 1, क्यू 2, क्यू 3 और क्यू 4 में समूहन दूसरों की तुलना में प्रत्येक राज्य का राजकोषीय संकेतक दर्शाता है। राज्यों को संकेतक श्रेणी में बढ़ते/घटते क्रम में रखने के बाद उन्हें क्वार्टाइलों में समूहबद्ध किया गया है। किसी भी संकेतक श्रेणी में क्यू 1 से क्यू 4 तक में उनका निष्पादन स्तर घटता नजर आएगा। 2. घटने (-) का निशान घाटा संकेतक में अधिशेष दर्शाता है। 3. दिए गए संकेतक हेतु मोटे अक्षरों में दर्शाए गए राज्य माध्यमिका राज्यों से संबंधित हैं। 4. सारणी 18 पर दिए गए नोट भी देखें।				